

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2019 — वैशाख 20, शक 1941

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
दाऊ कल्याण सिंह भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2019

अधिसूचना

क्रमांक 05A/पृ./चार/AARO/2019/4961. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 434/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-लो.स./2019(1) दिनांक 09-05-2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (Additional Assistant Returning Officer) की नियुक्ति अधिसूचित की गई है जो सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्वारा प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2019 — 19 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/पूर्व अनु०-1/छ०ग०-लो.स./2019 (1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग इसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/पूर्व अनु०-1/छ.ग.-लो.स./2019 (1) द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को, ऐसे अधिकारियों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के साधारण निर्वाचन के दौरान मतों की गणना में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है -

सारणी

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. सरगुजा (अ.ज.जा.)	9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर
	10. तहसीलदार, सूरजपुर
	11. नायब तहसीलदार, रामानुजनगर
	12. डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर
	13. तहसीलदार, भैयाथान
	14. नायब तहसीलदार, ओडगी
	15. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर
	16. नायब तहसीलदार, प्रतापपुर
	17. नायब तहसीलदार, प्रतापपुर
	18. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज
	19. तहसीलदार, बलरामपुर

	20. नायब तहसीलदार, बलरामपुर
	21. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर
	22. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी
	23. नायब तहसीलदार, राजपुर
	24. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर
	25. तहसीलदार, सीतापुर
	26. उप संचालक, उद्यानिकी, अम्बिकापुर
	27. डिप्टी कलेक्टर, अम्बिकापुर
	28. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अम्बिकापुर
	29. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अम्बिकापुर
	30. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतापुर
	31. डिप्टी कलेक्टर, अम्बिकापुर
	32. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा
	33. डिप्टी कलेक्टर, अम्बिकापुर
	34. तहसीलदार, अम्बिकापुर
	35. अनुविभागीय अधिकारी, वन, उदयपुर
	36. उपसंचालक, मत्स्य, अम्बिकापुर
	37. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग सीतापुर
2. रायगढ़ (अ.ज.जा.)	9. डिप्टी कलेक्टर, जशपुर
	10. डिप्टी कलेक्टर, जशपुर
	11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जशपुर
	12. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी
	13. डिप्टी कलेक्टर, जशपुर
	14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुनकुरी
	15. डिप्टी कलेक्टर, जशपुर
	16. तहसीलदार, पत्थलगाँव
	17. सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पत्थलगाँव
	18. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लैलूंगा
	19. डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़
	20. नायब तहसीलदार, तमनार
	21. डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़
	22. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रायगढ़
	23. तहसीलदार, रायगढ़
	24. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़

	25. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सारंगढ़
	26. नायब तहसीलदार, सारंगढ़
	27. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया
	28. डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़
	29. तहसीलदार, खरसिया
	30. डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़
	31. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़
	32. नायब तहसीलदार, धरमजयगढ़
	33. डिप्टीकलेक्टर, रायगढ़
	34. जिलाशिक्षा अधिकारी, रायगढ़
	35. जिलारोजगार अधिकारी, रायगढ़
	36. जिलाअल्प बचत अधिकारी, रायगढ़
	37. उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायगढ़
	38. कार्यपालनयंत्री, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, रायगढ़
	39. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन रायगढ़
	40. कार्यपालनयंत्री, जल संसाधन (केलो परियोजना) रायगढ़
3. जांजगीर-चाम्पा (अ.जा.)	9. प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जांजगीर-चाम्पा
	10. श्रम पदाधिकारी, जांजगीर-चाम्पा
	11. नायब तहसीलदार, बलौदा
	12. जिला रोजगार अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा
	13. डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर-चाम्पा
	14. नायब तहसीलदार, मालखरौदा
	15. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जांजगीर-चाम्पा
	16. नायब तहसीलदार, बम्हनीडीह
	17. नायब तहसीलदार, मालखरौदा
	18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदा
	19. जिला विपणन अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा
	20. नायब तहसीलदार, डभरा
	21. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा
	22. उप संचालक, पंचायत, जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा
	23. नायब तहसीलदार, डभरा
	24. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा
	25. नायब तहसीलदार, चाम्पा
	26. प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जांजगीर-चाम्पा

	27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिलाईगढ़
	28. लेखा अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार
	29. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कसडोल
	30. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पलारी
	31. जिला आबकारी अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा
	32. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा
	33. डिप्टी कलेक्टर, जाजगीर-चाम्पा
	34. डिप्टी कलेक्टर, जाजगीर-चाम्पा
	35. डिप्टी कलेक्टर, जाजगीर-चाम्पा
	36. नायब तहसीलदार, मालखरौदा
	37. नायब तहसीलदार, जैजैपुर
	38. नायब तहसीलदार, पामगढ़
	39. नायब तहसीलदार, नवागढ़
	40. नायब तहसीलदार, नवागढ़
	41. डिप्टी कलेक्टर, जाजगीर-चांपा
	42. डिप्टी कलेक्टर, जाजगीर-चांपा
	43. नायब तहसीलदार, जाजगीर
4. कोरबा	9. डिप्टी कलेक्टर, कोरिया
	10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोनहत
	11. तहसीलदार, सोनहत
	12. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरिया
	13. नायब तहसीलदार, खडगंवा
	14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भरतपुर
	15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुंठपुर
	16. तहसीलदार, बैकुंठपुर
	17. सहायक पंजीयक, सहकारिता, कोरिया
	18. जिला कोषालय अधिकारी, कोरबा
	19. निरीक्षक, नापतौल अधिकारी, कोरबा
	20. तहसीलदार, करतला
	21. डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
	22. संभागीय लेखाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कोरबा
	23. सहायक कोषालय अधिकारी, कोरबा
	24. नायब तहसीलदार, कटघोरा

	25. उप संचालक, पंचायत, कोरबा
	26. उप कोषालय अधिकारी, कटघोरा
	27. डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
	28. नायब तहसीलदार, कोरबा
	29. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरबा
	30. सहायक प्राध्यापक, डा भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर
	31. सहायक प्राध्यापक, पं.माधवराव सप्रे शासकीय महाविद्यालय, पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर
	32. डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
	33. नायब तहसीलदार, भैसमा (कोरबा)
	34. सहायक खनिज अधिकारी, कोरबा
	35. डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
	36. कार्यपालन अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, कोरबा
	37. नायब तहसीलदार, कोरबा
5. बिलासपुर	9. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग रतनपुर, जिला बिलासपुर
	10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोटा, जिला बिलासपुर
	11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा जिला बिलासपुर
	12. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी
	13. तहसीलदार, लोरमी
	14. नायब तहसीलदार, लोरमी
	15. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली
	16. तहसीलदार, मुंगेली
	17. नायब तहसीलदार, मुंगेली
	18. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तखतपुर, जिला बिलासपुर
	19. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन/ सड़क संभाग) उपखण्ड क्र 1, बिलासपुर
	20. उपायुक्त, भू-अभिलेख, बिलासपुर
	21. सहायक आयुक्त, राज्य कर, बिलासपुर वृत्त 1, बिलासपुर
	22. अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर

	23. डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
	24. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर
	25. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा, जिला बिलासपुर
	26. सहायक आयुक्त, राज्य कर, बिलासपुर वृत्त 1, बिलासपुर
	27. उप आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर
	28. अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर
	29. राजस्व निरीक्षक, नगर पालिक निगम, बिलासपुर
	30. अनुविभागीय अधिकारी, खारंग जल संसाधन उप संभाग, बिलासपुर
	31. अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उप खण्ड क्र.- 1, बिलासपुर, जिला बिलासपुर
	32. डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
	33. डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
	34. सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर
	35. प्राचार्य, राजस्व निरीक्षण प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर
	36. जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर
	37. संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, संभाग क्र. 1, बिलासपुर
6. राजनांदगांव	9. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कबीरधाम
	10. कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कबीरधाम
	11. सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कबीरधाम
	12. कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग, कबीरधाम
	13. कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, कबीरधाम
	14. सहायक अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कबीरधाम
	15. अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया परि- शीर्ष, जल संसाधन, उप संभाग, छुईखदान
	16. उप संचालक, उद्यानिकी, राजनांदगांव
	17. अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खैरागढ़
	18. कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग (भवन/सड़क), खैरागढ़
	19. वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़
	20. उपसंचालक, हथकरघा, राजनांदगांव
	21. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
	22. उप संचालक, कृषि विभाग, राजनांदगांव
	23. महाप्रबंधक, जिला उद्योग व्यापार केन्द्र, राजनांदगांव

	24. कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2 छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, राजनांदगांव
	25. कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग सेतु संभाग, राजनांदगांव
	26. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग, राजनांदगांव
	27. कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग, छुईखदान
	28. श्रम पदाधिकारी, कार्यालय श्रम पदाधिकारी, राजनांदगांव
	29. डीन, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, पेण्ड्री, राजनांदगांव
	30. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव
	31. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड राजनांदगांव
	32. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव
	33. अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व), गंडई-छुईखदान
	34. तहसीलदार, डोंगरगढ़
	35. तहसीलदार, राजनांदगांव
	36. तहसीलदार, डोंगरगांव
	37. तहसीलदार, छुरिया
	38. तहसीलदार, मानपुर
7. दुर्ग	10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन
	11. तहसीलदार, पाटन
	12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटन
	13. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग
	14. उप संचालक, उद्यानिकी, दुर्ग
	15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग
	16. तहसीलदार, दुर्ग
	17. उप संचालक, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग
	18. नायब तहसीलदार, दुर्ग
	19. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग
	20. नायब तहसीलदार, दुर्ग
	21. उप संचालक, समाज कल्याण, दुर्ग
	22. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग
	23. नायब तहसीलदार, दुर्ग
	24. सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग
	25. डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग
	26. तहसीलदार, धमधा
	27. प्रशासनिक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग

	28. तहसीलदार, साजा
	29. तहसीलदार, थानखम्हरिया
	30. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, साजा
	31. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा
	32. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेरला
	33. नायब तहसीलदार, बेरला
	34. तहसीलदार, नवागढ़
	35. तहसीलदार, बेमेतरा
	36. नायब तहसीलदार, नवागढ़
	37. वाणिज्यकर अधिकारी, दुर्ग
	38. सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग
	39. परियोजना अधिकारी, जामगांव
	40. सहायक खनिज अधिकारी, दुर्ग
	41. क्षेत्र संयोजक, आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग
8. रायपुर	10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदाबाजार
	11. कार्यपालन अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बलौदाबाजार-भाटापारा
	12. जिला खनिज अधिकारी, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
	13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिमगा
	14. कार्यपालन अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्रामसड़क योजना, बलौदाबाजार-भाटापारा
	15. कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बलौदाबाजार
	16. उप सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर
	17. तहसीलदार, नज़ूल, रायपुर
	18. सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अटलनगर, रायपुर
	19. महाप्रबंधक, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रायपुर
	20. नायब तहसीलदार, रायपुर
	21. सहायक अभियन्ता, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, लाईट मशीनरी एवं नलकूप संभाग, रायपुर
	22. उपायुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर
	23. नायब तहसीलदार, रायपुर
	24. सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु परिक्षेत्र, रायपुर
	25. डिप्टी कलेक्टर, रायपुर

	26. अतिरिक्त तहसीलदार, धरसीवा
	27. सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वि./या. मण्डल, जल संसाधनविभाग, रायपुर
	28. डिप्टी कलेक्टर रायपुर
	29. तहसीलदार रायपुर
	30. सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वि./या. मण्डल, जल संसाधनविभाग, रायपुर
	31. तहसीलदार, आरंग
	32. नायब तहसीलदार, मंदिर हसौद
	33. सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-1, रायपुर
	34. तहसीलदार, अभनपुर
	35. नायब तहसीलदार, अभनपुर
	36. सहायक अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अटल नगर, रायपुर
	37. डिप्टी कलेक्टर, रायपुर
	38. प्रबंधक (प्रशासन), अटल नगर विकास प्राधिकरण, अटल नगर, रायपुर
	39. डिप्टी कलेक्टर, रायपुर
	40. डिप्टी कलेक्टर, रायपुर
	41. नायब तहसीलदार, तिल्दा
	42. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, तिल्दा
	43. नायब तहसीलदार, धरसीवा
	44. नायब तहसीलदार, अभनपुर
	45. अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायपुर
	46. नायब तहसीलदार, रायपुर
9. महासमुंद	9. तहसीलदार, सरायपाली
	10. कार्यपालन अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुंद
	11. नायब तहसीलदार, सरायपाली
	12. तहसीलदार, बागबाहरा
	13. तहसीलदार, पिथौरा
	14. कार्यपालन अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुंद
	15. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागबाहरा
	16. उप संचालक, पंचायत, महासमुंद
	17. नायब तहसीलदार, बसना

	18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, महासमुंद
	19. नायब तहसीलदार, महासमुंद
	20. नायब तहसीलदार, बसना
	21. संयुक्त कलेक्टर, गरियाबंद
	22. तहसीलदार, राजिम
	23. नायब तहसीलदार, गरियाबंद
	24. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवभोग
	25. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मैनपुर
	26. नायब तहसीलदार, देवभोग
	27. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरुद
	28. तहसीलदार, कुरुद
	29. नायब तहसीलदार, कुरुद
	30. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी
	31. तहसीलदार, धमतरी
	32. नायब तहसीलदार, धमतरी
	33. अपर कलेक्टर, महासमुंद
	34. डिप्टी कलेक्टर, महासमुंद
	35. डिप्टी कलेक्टर, महासमुंद
	36. कार्यपालन अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुंद
	37. अधीक्षक, भू- अभिलेख, महासमुंद
10. बस्तर (अ.ज.जा.)	9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागाँव
	10. डिप्टी कलेक्टर, कोण्डागाँव
	11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागाँव
	12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर
	13. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर
	14. डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर
	15. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बस्तर
	16. डिप्टी कलेक्टर, बस्तर
	17. तहसीलदार, बस्तर
	18. डिप्टी कलेक्टर, बस्तर
	19. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बस्तर
	20. नायब तहसीलदार, जगदलपुर
	21. अपर कलेक्टर, बस्तर
	22. तहसीलदार, तोकापाल

	23. तहसीलदार, दरभा
	24. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा
	25. डिप्टी कलेक्टर, दंतेवाड़ा
	26. डिप्टी कलेक्टर, दंतेवाड़ा
	27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर
	28. डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर
	29. डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर
	30. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सुकमा
	31. डिप्टी कलेक्टर, सुकमा
	32. जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सुकमा
	33. डिप्टी कलेक्टर, बस्तर
	34. नायब तहसीलदार, तोकापाल
	35. तहसीलदार, बकावंड
	36. डिप्टी कलेक्टर, बस्तर
	37. नायब तहसीलदार, बास्तानार
	38. डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर
	39. डिप्टी कलेक्टर, दंतेवाड़ा
	40. डिप्टी कलेक्टर, दंतेवाड़ा
	41. डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर
	42. सहायक संचालक, कृषि, जिला सुकमा
11. कांकेर (अ.ज.जा.)	9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी
	10. तहसीलदार, नगरी
	11. तहसीलदार, मगरलोड
	12. डिप्टी कलेक्टर, बालोद
	13. तहसीलदार, बालोद
	14. डिप्टी कलेक्टर, बालोद
	15. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा
	16. तहसीलदार, डौण्डीलोहारा
	17. तहसीलदार, डौण्डी
	18. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही
	19. तहसीलदार, गुण्डरदेही
	20. डिप्टी कलेक्टर, बालोद
	21. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पखांजूर
	22. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा

23.	नायब तहसीलदार, कोयलीबेड़ा
24.	डिप्टी कलेक्टर, कांकेर
25.	नायब तहसीलदार, कोर
26.	नायब तहसीलदार, दुर्गुकोंदल
27.	डिप्टी कलेक्टर, कांकेर
28.	नायब तहसीलदार, सरोना
29.	नायब तहसीलदार, नरहरपुर
30.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केशकाल
31.	डिप्टी कलेक्टर, कोण्डागाँव
32.	डिप्टी कलेक्टर, कोण्डागाँव
33.	संयुक्त कलेक्टर, कांकेर
34.	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, कांकेर
35.	नायब तहसीलदार, भानुप्रतापपुर
36.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरहरपुर
37.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंतागढ़
38.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्गुकोंदल
39.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भानुप्रतापपुर
40.	कार्यपालन अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, भानुप्रतापपुर
41.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कांकेर
42.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कांकेर
43.	उप संचालक, उद्यानिकी, कांकेर
44.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, कांकेर

2. उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सहायक निर्वाचन अधिकारियों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलता पूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 9th May 2019 — 19 Jyistha, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No, 434/ES-1/CG-HP/2019 (1) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby appoints, in addition to the officers appointed by its Notification No 434/ES-1/CG-HP/2019 (1) dated 14th March, 2019, each of the officers of the Government of Chhattisgarh as specified in Column (2) of the table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the state of Chhattisgarh as specified in Column (1) of the said table, in counting of votes, during the ensuing General Election to the Lok Sabha, 2019, in the Chhattisgarh State:-

TABLE

Number and Name of the Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. SURGUJA (S.T.)	9. Sub Divisional Officer (Revenue), Surajpur
	10. Tehsildar, Surajpur
	11. Nayab Tehsildar, Ramanujnagar
	12. Deputy Collector, Surajpur
	13. Tehsildar, Bhaiyathan
	14. Nayab Tehsildar, Odgi
	15. Sub Divisional Officer (Revenue), Pratappur
	16. Nayab Tehsildar, Pratappur
	17. Nayab Tehsildar, Pratappur

	18. Sub Divisional Officer (Revenue), Ramanujganj
	19. Tehsildar, Balrampur
	20. Nayab Tehsildar, Balrampur
	21. Sub Divisional Officer (Revenue), Rajpur
	22. Sub Divisional Officer (Revenue), Kusmi
	23. Nayab Tehsildar, Rajpur
	24. Sub Divisional Officer (Revenue), Udaipur
	25. Tehsildar, Sitapur
	26. Deputy Director, Horticulture, Ambikapur
	27. Deputy Collector, Ambikapur
	28. Executive Engineer, Public Health Engineering, Ambikapur
	29. Executive Engineer, Rural Engineering Service, Ambikapur
	30. Sub Divisional Officer (Revenue), Sitapur
	31. Deputy Collector, Ambikapur
	32. Additional Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Surguja
	33. Deputy Collector, Ambikapur
	34. Tehsildar, Ambikapur
	35. Sub Divisional Officer, Forest, Udaipur
	36. Deputy Director, Fishery, Ambikapur
	37. Sub Divisional Officer, Rural Engineering Service , Sub Division Sitapur
2. RAIGARH (S.T.)	9. Deputy Collector, Jashpur
	10. Deputy Collector, Jashpur
	11. Assistant Commissioner , Tribal Development Department, Jashpur
	12. Sub Divisional Officer (Revenue), Kunkuri
	13. Deputy Collector, Jashpur
	14. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Kunkuri
	15. Deputy Collector, Jashpur
	16. Tehsildar, Patthalgaon
	17. Assistant Engineer, Rural Engineering Service, Pathalgaon

	18. Sub Divisional Officer (Revenue), Lailunga
	19. Deputy Collector, Raigarh
	20. Nayab Tehsildar, Tamnar
	21. Deputy Collector, Raigarh
	22. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Raigarh
	23. Tehsildar, Raigarh
	24. Sub Divisional Officer (Revenue), Sarangarh
	25. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Sarangarh
	26. Nayab Tehsildar, Sarangarh
	27. Sub Divisional Officer (Revenue), Kharsia
	28. Deputy Collector, Raigarh
	29. Tehsildar, Kharsia
	30. Deputy Collector, Raigarh
	31. District Programme Officer, Woman and Child Development Department, Raigarh
	32. Nayab Tehsildar, Dharamjaigarh
	33. Deputy Collector, Raigarh
	34. District Education Officer, Raigarh
	35. District Employment Officer, Raigarh
	36. District Small Savings Officer, Raigarh
	37. Deputy Registrar, Cooperative Societies, Raigarh
	38. Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Raigarh
	39. Superintending Engineer, Water Resources, Raigarh
	40. Executive Engineer, Water Resources (Kelo Project), Raigarh
3. JANJGIR- CHAMPA (S.C.)	9. Manager, District Industries and Trade Centre, Janjgir-Champa
	10. Labour Officer, Janjgir-Champa
	11. Nayab Tehsildar, Baloda
	12. District Employment Officer, Janjgir-Champa
	13. Deputy Collector, Janjgir-Champa

14.	Nayab Tehsildar, Malkharoda
15.	General Manager, District Industries and Trade Centre, Janjgir-Champa
16.	Nayab Tehsildar, Bamhanidih
17.	Nayab Tehsildar, Malkharoda
18.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Baloda
19.	District Marketing Officer, Janjgir-Champa
20.	Nayab Tehsildar, Dabhara
21.	District Education Officer, Janjgir-Champa
22.	Deputy Director, Panchayat, Zila Panchayat, Janjgir-Champa
23.	Nayab Tehsildar, Dabhara
24.	District Women & Child Development Officer, Janjgir-Champa
25.	Nayab Tehsildar, Champa
26.	Manager, District Industries and Trade Centre, Janjgir-Champa
27.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Bilaigarh
28.	Accounts Officer, Zila Panchayat, Balodabazar
29.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Kasdol
30.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Palari
31.	District Excise Officer, Balodabazar-Bhatapara
32.	District Programme Officer, Women and Child Development Department, Balodabazar-Bhatapara
33.	Deputy Collector, Janjgir-Champa
34.	Deputy Collector, Janjgir-Champa
35.	Deputy Collector, Janjgir-Champa
36.	Nayab Tehsildar, Malkharoda
37.	Nayab Tehsildar, Jaijaipur
38.	Nayab Tehsildar, Pamgarh
39.	Nayab Tehsildar, Nawagarh
40.	Nayab Tehsildar, Nawagarh
41.	Deputy Collector, Janjgir-Champa
42.	Deputy Collector, Janjgir-Champa
43.	Nayab Tehsildar, Janjgir

4. KORBA	9. Deputy Collector, Koriya
	10. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Sonhat
	11. Tehsildar, Sonhat
	12. District Programme Officer, Women and Child Development Department, Koriya
	13. Nayab Tehsildar, Khadgawan
	14. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Bharatpur
	15. Executive Engineer, Water Resources Division, Baikunthpur
	16. Tehsildar, Baikunthpur
	17. Assistant Registrar, Co-operative Societies, Koriya
	18. District Treasury Officer, Korba
	19. Inspector, Naaptol Officer, Korba
	20. Tehsildar, Kartala
	21. Deputy Collector, Korba
	22. Divisional Accounting Officer, Public Health Engineering Department, Korba
	23. Assistant Treasury Officer, Korba
	24. Nayab Tehsildar, Katghora
	25. Deputy Director, Panchayat, Korba
	26. Sub Treasury Officer, Katghora
	27. Deputy Collector, Korba
	28. Nayab Tehsildar, Korba
	29. District Programme Officer, Women and Child Development Department, Korba
	30. Assistant Professor, Dr. Bhanwar Singh Porte Government College, Pendra, District- Bilaspur
	31. Assistant Professor, Pt. Madhav Rao Sapre Government College, Pendra road, District- Bilaspur
	32. Deputy Collector, Bilaspur
	33. Nayab Tehsildar, Bhaisma (Korba)
	34. Assistant Mining Officer, Korba
	35. Deputy Collector, Korba
	36. Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Korba
	37. Nayab Tehsildar, Korba

5. BILASPUR	9. Sub Divisional Officer, Water Resources Sub-Division, Ratanpur, District- Bilaspur
	10. Child Development Project Officer, Integrated Child Development Project, Kota, District- Bilaspur
	11. Sub Divisional Officer (Revenue), Kota, District- Bilaspur
	12. Sub Divisional Officer (Revenue), Lormi
	13. Tehsildar, Lormi
	14. Nayab Tehsildar, Lormi
	15. Sub Divisional Officer (Revenue), Mungeli
	16. Tehsildar, Mungeli
	17. Nayab Tehsildar, Mungeli
	18. Sub Divisional Officer, Water Resources Sub-Division, Takhatpur, District- Bilaspur
	19. Sub Divisional Officer, Public Works Department (Building / Road Division), Sub-Division No. 1, Bilaspur
	20. Deputy Commissioner, Land Record, Bilaspur
	21. Assistant Commissioner, State Tax, Bilaspur, Circle 1, Bilaspur
	22. Sub Divisional Officer, Public Health Engineering Department, Sub-Division Takhatpur, District- Bilaspur
	23. Deputy Collector, Bilaspur
	24. Executive Engineer, Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency, Regional Office, Bilaspur
	25. Executive Engineer, Water Resources Division, Kota, District- Bilaspur
	26. Assistant Commissioner, State Tax, Bilaspur Circle 1, Bilaspur
	27. Deputy Commissioner, Municipal Corporation, Bilaspur
	28. Additional Tehsildar, Bilaspur
	29. Revenue Inspector, Municipal Corporation, Bilaspur
	30. Sub Divisional Officer, Kharang Water Resources Sub-Division, Bilaspur
	31. Sub Divisional Officer, Public Health Engineering Department, Sub-Division No. 1, Bilaspur, District- Bilaspur

	32. Deputy Collector, Bilaspur
	33. Deputy Collector, Bilaspur
	34. Assistant Project Officer, Zila Panchayat, Bilaspur
	35. Principal, Revenue Inspector Training School, Bilaspur
	36. District Education Officer, Bilaspur
	37. Senior Divisional Account Officer, Office of The Executive Engineer, Public Works Department, Division Number 1, Bilaspur
6. RAJNANDGAON	9. Executive Engineer, Rural Engineering Service, Kabirdham
	10. Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram SadakYojna, Kabirdham
	11. Asst. Engineer, Pradhan Mantri Gram SadakYojna, Kabirdham
	12. Executive Engineer, Water Resource Division, Kabirdham
	13. Executive Engineer, Public Works Department, Kabirdham
	14. Assistant Engineer, MukhyaMantri Gram SadakYojna, Kabirdham
	15. Sub Divisional Officer, PipariyaPari. Shirsh, Water Resource Sub Division , Chhuikhadan
	16. Deputy Director, Horticulture , Rajnandgaon
	17. Sub Divisional Officer, Public Health Engineering , Khiragarh
	18. Executive Engineer, Public Works Department (Building/Road), Khairagarh
	19. Divisional Forest Officer, Khairagarh
	20. Deputy Director, Hathkargha, Rajnandgaon
	21. Commissioner, Municipal Corporation, Rajnandgaon
	22. Deputy Director, Agricultural Department, Rajnandgaon
	23. General Manager, District Trade and Industry Centre, Rajnandgaon
	24. Executive Engineer, Project Implementation Unit Number 2, Chhattisgarh Rural Roadside Development Agency, Rajnandgaon

	25. Executive Engineer, Public Works Department (Bridge Division), Rajnandgaon
	26. Executive Engineer, Rural Development Division, Rajnandgaon
	27. Executive Engineer, Water Resource Division, Chhuikhadan
	28. Labour Officer, Office of The Labour Officer, Rajnandgaon
	29. Dean, Horticulture College and Research Center, Pendri, Rajnandgaon
	30. Executive Engineer, Water Resources Division, Rajnandgaon
	31. Executive Engineer, Public Health Engineering, Section Rajnandgaon
	32. Executive Engineer, Water Resource Bairaj Division, Dongargaon
	33. Sub Divisional Officer (Revenue), Gandai-Chhuikhadan
	34. Tehsildar, Dongargarh
	35. Tehsildar, Rajnandgaon
	36. Tehsildar, Dongargaon
	37. Tehsildar, Chhuriya
	38. Tehsildar, Manpur
7. DURG	10. Sub Divisional Officer (Revenue), Patan
	11. Tehsildar, Patan
	12. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Patan
	13. Deputy Collector, Durg
	14. Deputy Director, Horticulture, Durg
	15. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Durg
	16. Tehsildar, Durg
	17. Deputy Director, District Employment and Self Employment Guidance Center, Durg
	18. Nayab Tehsildar, Durg
	19. Deputy Collector, Durg
	20. Nayab Tehsildar, Durg
	21. Deputy Director, Social Welfare, Durg

	22. Deputy Collector, Durg
	23. Nayab Tehsildar, Durg
	24. Assistant Registrar, Co-operative Societies, Durg
	25. Deputy Collector, Durg
	26. Tehsildar, Dhamdha
	27. Administrative Officer, Tribal Development Department, Durg
	28. Tehsildar, Saja
	29. Tehsildar, Thankhamariya
	30. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Saja
	31. Sub-Divisional Officer (Revenue), Bemetara
	32. Sub-Divisional Officer (Revenue), Berla
	33. Nayab Tehsildar, Berla
	34. Tehsildar, Nawagarh
	35. Tehsildar, Bemetara
	36. Nayab Tehsildar, Nawagarh
	37. Commercial Tax Officer, Durg
	38. Assistant Labour Commissioner, Durg
	39. Project Officer, Jamgaon
	40. Assistant Mining Officer, Durg
	41. Area Organiser, Tribal Development Department, Durg
8. RAIPUR	10. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Balodabazar
	11. Executive Engineer, Public Health Engineering , Balodabazar-Bhatapara
	12. District Mining Officer, Dist-Balodabazar-Bhatapara
	13. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Simga
	14. Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram SadakYojna, Balodabazar-Bhatapara
	15. Executive Engineer, Water Resource Department, Balodabazar
	16. Deputy Secretary, Chhattisgarh Board of Secondary Education, Raipur

17.	Tehsildar, Nazul, Raipur
18.	Assistant Engineer, Office of the Engineer in Chief, Public Works Department, Atal Nagar, Raipur
19.	General Manager, Raipur Smart City Limited, Raipur
20.	Nayab Tehsildar, Raipur
21.	Assistant Engineer, Office of the Executive Engineer, Light Machinery and Tube well Division, Raipur
22.	Deputy Commissioner, Land-Record, Raipur
23.	Nayab Tehsildar, Raipur
24.	Assistant Engineer, Office of the Engineer in Chief, Public Works Department, Bridge Range, Raipur
25.	Deputy Collector, Raipur
26.	Additional Tehsildar, Dharsiwa
27.	Assistant Engineer, Office of the Suprintending Engineer, E&M Circle, Water Resources Department, Raipur
28.	Deputy Collector, Raipur
29.	Tehsildar, Raipur
30.	Assistant Engineer, Office of the Superintending Engineer, E&M Circle, Water Resources Department, Raipur
31.	Tehsildar, Arang
32.	Nayab Tehsildar, MandirHasoud
33.	Assistant Engineer, Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Division -1, Raipur
34.	Tehsildar, Abhanpur
35.	Nayab Tehsildar, Abhanpur
36.	Assistant Engineer, Office of the Engineer in Chief, Public Works Department, Atal Nagar, Raipur
37.	Deputy Collector, Raipur
38.	Manager (Administrator), Atal Nagar VikasPradhikaran, Atal Nagar, Raipur
39.	Deputy Collector, Raipur

	40. Deputy Collector , Raipur
	41. Nayab Tehsildar, Tilda
	42. Project Officer, Department of Woman and Child Development, Tilda
	43. Nayab Tehsildar, Dharsiwa
	44. Nayab Tehsildar, Abhanpur
	45. Superintendent, Land-Record, Raipur
	46. Nayab Tehsildar, Raipur
9. MAHASAMUND	9. Tehsildar, Saraipali
	10. Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram SadakYojna, Mahasamund
	11. Nayab Tehsildar, Saraipali
	12. Tehsildar, Bagbahara
	13. Tehsildar, Pithora
	14. Executive Engineer, MukhyaMantri Gram SadakYojna , Mahasamund
	15. Sub Divisional Officer (Revenue), Bagbahara
	16. Deputy Director, Panchayat, Mahasamund
	17. Nayab Tehsildar, Basna
	18. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Mahasamund
	19. Nayab Tehsildar, Mahasamund
	20. Nayab Tehsildar, Basna
	21. Joint Collector, Gariyaband
	22. Tehsildar, Rajim
	23. Nayab Tehsildar, Gariyaband
	24. Sub Divisional Officer (Revenue), Deobhog
	25. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Mainpur
	26. Nayab Tehsildar, Deobhog
	27. Sub Divisional Officer (Revenue), Kurud
	28. Tehsildar, Kurud
	29. Nayab Tehsildar, Kurud

	30. Sub Divisional Officer (Revenue), Dhamtari
	31. Tehsildar, Dhamtari
	32. Nayab Tehsildar, Dhamtari
	33. Additional Collector, Mahasamund
	34. Deputy Collector, Mahasamund
	35. Deputy Collector, Mahasamund
	36. Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Mahasamund
	37. Superintendent, Land- Record, Mahasamund
10. BASTAR (S.T.)	9. Sub Divisional Officer (Revenue), Kondagaon
	10. Deputy Collector, Kondagaon
	11. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Kondagaon
	12. Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Narayanpur
	13. Sub-Divisional Officer (Revenue), Narayanpur
	14. Deputy Collector, Narayanpur
	15. Sub Divisional Officer (Revenue), Bastar
	16. Deputy Collector, Bastar
	17. Tehsildar, Bastar
	18. Deputy Collector, Bastar
	19. Assistant Superintendent, Land Record, Bastar
	20. Nayab Tehsildar, Jagdalpur
	21. Additional Collector, Bastar
	22. Tehsildar, Tokapal
	23. Tehsildar, Darbha
	24. Sub Divisional Officer (Revenue), Dantewada
	25. Deputy Collector, Dantewada
	26. Deputy Collector, Dantewada
	27. Chief Executive Officer, Zila panchayat, Bijapur
	28. Deputy Collector, Bijapur
	29. Deputy Collector, Bijapur

	30. Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sukma
	31. Deputy Collector, Sukma
	32. District Project Officer, Department of Woman and Child Development, Sukma
	33. Deputy Collector, Bastar
	34. Nayab Tehsildar, Tokapal
	35. Tehsildar, Bakawand
	36. Deputy Collector, Bastar
	37. Nayab Tehsildar, Bastanar
	38. Deputy Collector, Narayanpur
	39. Deputy Collector, Dantewada
	40. Deputy Collector, Dantewada
	41. Deputy Collector, Bijapur
	42. Assistant Director, Agriculture, District-Sukma
11. KANKER (S.T.)	9. Sub Divisional Officer (Revenue), Nagri
	10. Tehsildar, Nagri
	11. Tehsildar, Magarlod
	12. Deputy Collector, Balod
	13. Tehsildar, Balod
	14. Deputy Collector, Balod
	15. Sub Divisional Officer (Revenue), Dondilohara
	16. Tehsildar, Dondilohara
	17. Tehsildar, Dondi
	18. Sub Divisional Officer (Revenue), Gunderdehi
	19. Tehsildar, Gunderdehi
	20. Deputy Collector, Balod
	21. Sub Divisional Officer (Revenue), Pakhanjur
	22. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Koylibeda
	23. Nayab Tehsildar, Koylibeda
	24. Deputy Collector, Kanker

25.	Nayab Tehsildar, Korar
26.	Nayab Tehsildar, Durgukondal
27.	Deputy Collector, Kanker
28.	Nayab Tehsildar, Sarona
29.	Nayab Tehsildar, Narharpur
30.	Sub Divisional Officer (Revenue), Keshkal
31.	Deputy Collector, Kondagaon
32.	Deputy Collector, Kondagaon
33.	Joint Collector, Kanker
34.	Assistant Superintendent, Land Record, Kanker
35.	Nayab Tehsildar, Bhanupratappur
36.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Narharpur
37.	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Antagarh
38.	Chief Executive Officer, Janpd panchayat, Durgukondal
39.	Executive Engineer, Public Works Department, Bhanupratappur
40.	Executive Engineer, Pradhan Mantri Gram SadakYojna, Bhanupratappur
41.	District Woman and Child Development Officer, Kanker
42.	Executive Engineer, Water Resources Division, Kanker
43.	Deputy Director, Horticulture, Kanker
44.	District Programme Officer, Woman and Child Development, Kanker

2. The Officers in Column 2 of the above Table shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of counting of votes in the General Election to House of People, 2019 in Chhattisgarh.

By Order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)

Principal Secretary
Election Commission of India.